



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1934 (श0)
(सं0 पटना 236) पटना, बृहस्पतिवार, 14 मार्च 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

12 मार्च 2013

एस0ओ0 167, दिनांक 14 मार्च 2013—जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-701/विधि, दिनांक 19.06.2012 के अनुसरण में जहानाबाद जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप जहानाबाद जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री अरविन्द कुमार, पंजीयन संख्या-1614/1996 को जिनका कार्यकाल जनवरी, 2012 को समाप्त हो चुका था और वे कार्यरत थे उनके द्वारा किये गये कार्यों को विनियमित करते हुए जनवरी, 2012 से अगले तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

3. इसके लिए उन्हें लोक अभियोजक के दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा।

4. इन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।

5. इनका यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक माह में लंबित तथा निष्पादित वादों से संबंधित प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को समर्पित करेंगे।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालनार्थ वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में इनके कार्यों की लंबित केशों की समीक्षा जिला पदाधिकारी तथा निर्देशक अभियोजन द्वारा की जायेगी तथा उन्हें सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करना है।

(सं०सं०-सी०/ए०एस०-3-16/2008/1909/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 236-571+25-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>